

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 218 ]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 13 मार्च 2025 — फाल्गुन 22, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2025

### आदेश

क्रमांक 1056/822/21-ब/छ.ग./2025.— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 की उपधारा (8) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा थाना सूरजपुर के अपराध क्रमांक 575/2024 धारा 137 (2), 138, 140 (1), 103 (1), 331 (8), 238 (6), 61 (2), 70, 66, 249, 3(5) बी.एन.एस., धारा 6, 10 पोक्सो एक्ट, धारा 25 आर्म्स एक्ट, धारा 14 रासुका के प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी करने हेतु श्री सुरेश प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

उक्त प्रकरणों के प्रत्येक प्रभावी सुनवाई तिथि हेतु उन्हें व्यवसायिक शुल्क के रूप में रुपये 35,000/- (पैंतीस हजार रुपये मात्र) देय होगी तथा उक्त व्यवसायिक शुल्क प्रशासकीय विभाग (गृह विभाग) द्वारा वहन किया जाएगा।

उक्त वित्तीय स्वीकृति, वित्त विभाग के जावक क्रमांक 236 दिनांक 04-03-2025 के द्वारा प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रशांत कुमार भास्कर, उप-सचिव.